



PHONE : 011-23272216-18  
: 011-23278001-02  
FAX : 011-23274606

Website : <http://www.mgfltd.com>  
E-mail : [mgfltd@hotmail.com](mailto:mgfltd@hotmail.com)  
CIN No. : L74899DL1930PLC000208  
GSTIN : 07AAACT2356D2ZN

# THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

M.G.F. HOUSE,

Regd. & H.O. : 4/17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI- 110 002

DLI:CS:BSE:NSE:2022

February 10,2022

The Secretary,  
Bombay Stock Exchange Limited.,  
25<sup>th</sup> Floor, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001  
Stock Code: 501343

The Secretary,  
National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
Plot No.C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex, Bandra(E)  
Mumbai-400051  
Stock Code: Motogenfin

Dear Sir,

Re: Submission of published copy of extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months period ended December 31,2021 under IND-AS Rules

In terms of Regulation 47 of SEBI(LODR) Regulations,2015, we are enclosing herewith a scanned copy of extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months period ended December 31,2021 under IND-AS Rules published in the newspapers viz, "The Financial Express" (English) and "Jansata"(Hindi) both on February 9,2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(M.K. MADAN)  
VP & CS & COMPLIANCE OFFICER  
ENCL: AS ABOVE.



**MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED**  
 CIN : L74899DL1930PLC000208  
 REGD. OFFICE : MGF HOUSE, 4 / 17B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI 110002.  
 Email ID: mgfltd@hotmail.com, Website : http://www.mgfltd.com, Phone: 23272216-18

**Extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021** (₹ in Lakhs)

| S. No. | Particulars                                                                                                                                  | Standalone                |                         |                           | Consolidated              |                         |                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        |                                                                                                                                              | Quarter ended             | Year ended              | Quarter ended             | Quarter ended             | Year ended              | Quarter ended             |
|        |                                                                                                                                              | 31-12-2021<br>(Unaudited) | 31-03-2021<br>(Audited) | 31-12-2020<br>(Unaudited) | 31-12-2021<br>(Unaudited) | 31-03-2021<br>(Audited) | 31-12-2020<br>(Unaudited) |
| 1      | Total Income from operations                                                                                                                 | 177.58                    | 489.86                  | 97.72                     | 177.58                    | 489.85                  | 97.72                     |
| 2      | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)                                                    | (43.10)                   | (105.74)                | (93.87)                   | (43.10)                   | (186.70)                | (93.87)                   |
| 3      | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)                                               | (43.10)                   | (105.74)                | (93.87)                   | (43.10)                   | (186.70)                | (93.87)                   |
| 4      | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)                                                | (43.10)                   | (105.74)                | (93.87)                   | (42.02)                   | (187.37)                | (94.29)                   |
| 5      | Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) | (41.10)                   | (96.46)                 | (91.08)                   | (39.90)                   | (136.64)                | (91.37)                   |
| 6      | Equity Share Capital                                                                                                                         | 1,936.36                  | 1,936.36                | 1,936.36                  | 1,936.36                  | 1,936.36                | 1,936.36                  |
| 7      | Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year                                          |                           | 3,471.86                |                           |                           | 3,287.85                |                           |
| 8      | Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)                                                            |                           |                         |                           |                           |                         |                           |
|        | - Basic (in Rupees)                                                                                                                          | (0.11)                    | (0.27)                  | (0.24)                    | (0.11)                    | (0.49)                  | (0.24)                    |
|        | - Diluted (in Rupees)                                                                                                                        | (0.11)                    | (0.27)                  | (0.24)                    | (0.11)                    | (0.49)                  | (0.24)                    |

**Note:**  
 1. The above is extract of the detailed format of quarterly Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchanges website at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website at [www.mgfltd.com](http://www.mgfltd.com).  
 2. The above standalone financial results have been approved by the Audit Committee at their meeting held on Tuesday, the February 08, 2022 and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on Tuesday, the February 08, 2022.  
 3. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.  
 4. Previous year / periods figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.

**FOR THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED**  
 Sd/-  
**(RAJIV GUPTA)**  
**CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER**  
 DIN: 00022964  
**Place: New Delhi**  
**Date: February 08, 2022**

**PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF PARSHARTI INVESTMENT LIMITED**

**Corporate Identification Number:** L93000MH1992PLC069958;  
**Registered Office:** 3, National House, 1st Floor, 27, Raghunath Dadaji Street, Fort, Mumbai 400011, Maharashtra, India; **Contact Details:** +91222622675/22679029; **Website:** [www.parshartiinvestment.com](http://www.parshartiinvestment.com); **Email ID:** [parsharti\\_investment@rediffmail.com](mailto:parsharti_investment@rediffmail.com); [cs.parsharti@rediffmail.com](mailto:cs.parsharti@rediffmail.com);  
 This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement ("Advertisement") is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited ("Manager"), for and on behalf of Patel Ganeshyambhai N. (Acquirer 1) and Patel Pareshbhai Nanjibhai (Acquirer 2) pursuant to the provisions of Regulation 18 (7) of the Securities Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations"), in respect of the Offer for acquisition of up to 8,72,898 (Eight Lakhs Seventy-Two Thousand Eight Hundred and Ninety-Eight) fully paid-up equity shares of face value of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares"), representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Parsharti Investment Limited ("PARSHINV" or "Target Company"), at a price of ₹7.00/- (Rupees Seven Only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash ("Offer").  
 This Advertisement is to be read in conjunction with the (a) Public Announcement dated Friday, December 17, 2021 ("PA"); (b) Detailed Public Statement dated Monday, December 20, 2021, which was published on Tuesday, December 21, 2021 in Financial Express (English daily) (All Editions), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition), and Jansatta (Hindi daily) (All Editions) ("DPS"); (c) Letter of Offer dated Friday, January 28, 2022, along with Form of Acceptance-Cum-Acknowledgement (for holding Equity Shares in physical form), and Form SH-4 Securities Transfer Form ("LoF"); and (d) Dispatch confirmation advertisement dated Friday, February 04, 2022, which was published in the same newspapers in which the DPS had been published on Saturday, February 05, 2022 ("Dispatch Confirmation Advertisement"). This Advertisement is being published in the newspapers in which the DPS was published.

- Offer Price:** The Offer Price of ₹7.00/- (Rupees Seven Only) payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to the Paragraph 6.1 beginning on page 19 of the LoF.
- Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company ("IDC"):** The Committee of IDC have opined that the Offer Price of ₹7.00/- (Rupees Seven Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, which was approved on Monday, February 07, 2022, and published on Tuesday, February 08, 2022, in the same newspapers in which the DPS was published.
- This Offer is not a competing offer.
- The LoF has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Thursday, January 27, 2022, being the Identified Date:
- On Monday, January 31, 2022, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company;
- On Thursday, February 03, 2022, through speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive, and to those Public Shareholders to whom the dispatch of LoF vide electronic mode had been handed.
- Please note that a copy of the LoF is also available on the websites of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), Target Company at [www.parshartiinvestment.com](http://www.parshartiinvestment.com), Registrar to the Offer at [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in), and Manager at [www.capitalsquare.in](http://www.capitalsquare.in).
- Public Shareholders are required to refer to the Paragraph 8 titled as "Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer" beginning on page 23 of the LoF in relation to the procedure for tendering their Equity Shares in the Offer.

**Instructions for Public Shareholders**  
**a) In case the Equity Shares are held in physical form**  
 Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in this Offer through their Selling Broker by providing relevant information and documents as mentioned in Paragraph 8.9 titled as "Procedure for Equity Shares held in physical form" beginning on page 23 of the LoF along with Form SH-4.  
**b) In case the Equity Shares are held in Demat form**  
 Public Shareholders holding the Equity Shares in Demat form may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their Equity Shares in Offer as per the procedure as mentioned in Paragraph 8.10 titled as "Procedure for Equity Shares held in Demat form" beginning on page 24 of the LoF along with their details.  
 7. All the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR-III/P/OW/28449/1' dated Monday, January 24, 2022, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the LoF.  
 8. There are no other material updates in relation to this Offer since the date of PA, save as otherwise disclosed in the DPS, and the LoF.  
 9. As on the date of this Advertisement and in the best of knowledge of the Acquirers as on the date of this Advertisement, there are no statutory, regulatory, or other approvals required by the Acquirers to be implemented to complete this Offer. Please refer to the Paragraph 7.6 titled as "Statutory Approvals and conditions of the Offer" beginning on page 22 of the LoF.  
 10. **Schedule of Activities:**

| Schedule of Activities                                                                                                                                               | Original Schedule |                   | Revised Schedule |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                      | Day               | Date              | Day              | Date              |
| Date of the PA                                                                                                                                                       | Friday            | December 17, 2021 | Friday           | December 17, 2021 |
| Last date of publication of the DPS in the newspapers                                                                                                                | Friday            | December 24, 2021 | Tuesday          | December 21, 2022 |
| Last date of filing of the LoF with SEBI                                                                                                                             | Friday            | December 31, 2021 | Friday           | December 24, 2021 |
| Last date for public announcement for a Competing Offer#                                                                                                             | Friday            | January 14, 2022  | Friday           | January 14, 2022  |
| Last date by which SEBI's observations on the LoF will be received (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager)       | Friday            | January 21, 2022  | Monday           | January 24, 2022  |
| Identified Date*                                                                                                                                                     | Friday            | January 25, 2022  | Thursday         | January 27, 2022  |
| Date by which the LoF will be dispatched to the Public Shareholders whose names appear on the register of members on the Identified Date                             | Wednesday         | February 02, 2022 | Thursday         | February 03, 2022 |
| Last date by which the committee of the independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the Public Shareholders for this Offer | Monday            | February 07, 2022 | Tuesday          | February 08, 2022 |
| Last date for upward revision of the Offer Price and / or the Offer Size                                                                                             | Tuesday           | February 08, 2022 | Wednesday        | February 09, 2022 |
| Date of publication of opening of Offer public announcement in the newspapers in which the DPS had been published                                                    | Tuesday           | February 08, 2022 | Wednesday        | February 09, 2022 |
| Date of commencement of Tendering Period                                                                                                                             | Wednesday         | February 09, 2022 | Thursday         | February 10, 2022 |
| Date of closing of Tendering Period                                                                                                                                  | Tuesday           | February 22, 2022 | Wednesday        | February 23, 2022 |
| Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders                | Wednesday         | March 09, 2022    | Thursday         | March 10, 2022    |

*Note: The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite approvals from various statutory/regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.*  
 # There has been no competing offer.  
 \*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the LoF would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirers and the parties to the SPA) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.  
 11. The copies of the inspection documents as specified under Paragraph 13 titled as "Documents for Inspection" beginning on page 28 of the LoF will be available for inspection at the registered office of the Manager, CapitalSquare Advisors Private Limited, located at 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra, India, any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering period i.e., commencing from Thursday, February 10, 2022 to Wednesday, February 23, 2022.  
 12. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available on website of the SEBI accessible at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), BSE accessible at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), Target Company accessible at [www.parshartiinvestment.com](http://www.parshartiinvestment.com), Registrar accessible at [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in), and Manager accessible at [www.capitalsquare.in](http://www.capitalsquare.in).  
 13. The capitalized terms used in this Advertisement shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified.

**Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers**

**CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED**  
 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No. 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400 093, Maharashtra, India;  
**Telephone Number:** +91-22-66849999/ +91-98742-83532;  
**Email Address:** [tanmoy.banerjee@capitalsquare.in](mailto:tanmoy.banerjee@capitalsquare.in); [pankita.patel@capitalsquare.in](mailto:pankita.patel@capitalsquare.in);  
**Website:** [www.capitalsquare.in](http://www.capitalsquare.in);  
**Contact Person:** Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel;  
**SEBI Registration Number:** INM000012219;  
**Validity:** Permanent;

On behalf of the Acquirers  
 Sd/-  
**Patel Ganeshyambhai N**

Date: Tuesday, February 08, 2022  
 Place: Mumbai

**FORM NO. 5**  
**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, Lucknow**  
**(jurisdiction - Part of UP and Uttaranchal)**  
 600/1 University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow - 226 007  
**Summons for filing Reply & Appearance by Publication**

**O.A. No. 716/2020** Date: 22-09-2021  
**Summons to Defendant Under Section 19 (4), Of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1953 read with Rules 12 and 13 of the Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)**

**Canara Bank** ..... APPLICANT  
**VERSUS**  
**M/s FALCON PACKAGING & OTHERS** ..... DEFENDANTS

To,  
 1. M/s Falcon Packaging a partnership firm having its registered office at D-140, Delta-1, Grater Noida District Gautam Budh Nagar - 201308  
 2. Mr. Jagat Bansal Son of Shri Veer Singh resident of House No.D-140, Sector Delta-1, Grater Noida Uttar Pradesh - 201308  
 3. Smt. Manisha Malik wife of Shri Ravinder Malik resident of Flat No. H- 3013 Assotech Society Zeta - 1, Greater Noida U.P  
**Also at:** 438 Near Toll Plaza, Huda Sector 18, Panipat, Haryana - 132103.  
 ...DEFENDANTS

In the above noted Application, you are required to file reply in paper Book form in Two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **10.02.2022 at 10:30 A.M.** failing which the Application shall be heard and decided in your absence.

Registrar  
**Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

**Servotech Power Systems Limited**  
 CIN: L31200DL2004PLC129379  
**Registered Office:** 806, 8<sup>th</sup> Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector 10, Rohini, New Delhi-110085 | Tel No : 011-41117658  
**Email:** [investor.relations@servotechindia.com](mailto:investor.relations@servotechindia.com) | **Website:** [www.servotech.in](http://www.servotech.in)

**NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the Extra-ordinary General Meeting ("EGM") of Servotech Power Systems Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 4<sup>th</sup> March, 2022 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual means ("OAVM") to transact the business as set forth in the Notice of the EGM dated 1<sup>st</sup> February, 2022.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated 5<sup>th</sup> May, 2020 read with circulars dated 8<sup>th</sup> April, 2020 and 13<sup>th</sup> April, 2020 and SEBI Circular dated 12<sup>th</sup> May, 2020 (collectively referred to as "Applicable Circulars"), the Company has decided to conduct the EGM of the Company through VCOAVM.

In compliance with the aforesaid Applicable Circulars, the Notice of the EGM have been sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Registrar and Share Transfer Agent i.e. Bigshare Services Private Limited ("RTA"/"Bigshare") of the Company & Depositories. The dispatch of Notice of the EGM through emails has been completed on 8<sup>th</sup> February, 2022. The Notice of EGM is available on the website and can be downloaded from the Company's website i.e. [www.servotech.in](http://www.servotech.in), website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com). Alternatively, Members can send email to the Company at: [investor.relations@servotechindia.com](mailto:investor.relations@servotechindia.com) or the Company's RTA at: [mukesh@bigshareonline.com](mailto:mukesh@bigshareonline.com) to obtain the same.

Members may note that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 26<sup>th</sup> February, 2022 to Friday, 4<sup>th</sup> March, 2022 (both days inclusive) for the purpose of reckoning shareholders for the purpose of EGM.

**Maner for registering email addresses:**  
 1. In case shares are held in Physical mode, please send a request to the RTA at [mukesh@bigshareonline.com](mailto:mukesh@bigshareonline.com) providing folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.  
 2. In case shares are held in dematerialized mode, please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

**Voting through electronic means**  
 1. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), and Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EGM. The Company has engaged the services of NSDL as authorized e-voting agency and has made necessary arrangements with them for facilitating voting through electronic means. In order to cast votes through remote e-voting, the members may visit the website <https://www.evoting.nsdl.com>.  
 2. The cut-off date for the purpose of voting (including remote e-voting) is Friday, 25<sup>th</sup> February, 2022.  
 3. The remote e-voting facility will be available during the following period after which the portal shall forthwith be blocked and shall not be available by NSDL:  
 Commencement of remote e-voting: 09:00 A.M. (IST) on Tuesday, 1<sup>st</sup> March, 2022  
 End of remote e-voting: 05:00 P.M. (IST) on Thursday, 3<sup>rd</sup> March, 2022

1. During the above period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 25<sup>th</sup> February, 2022 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the date of despatch of Notice through electronic means and before cut-off date may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [mukesh@bigshareonline.com](mailto:mukesh@bigshareonline.com) or [investor.relations@servotechindia.com](mailto:investor.relations@servotechindia.com).  
 2. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VCOAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure and manner for remote e-voting is available on: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and in the EGM Notice.

**Procedure for attending the EGM through VCOAVM**  
 Members are provided with a facility to attend the EGM through VCOAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VCOAVM will be available in shareholder/members login where the E-voting Event Number (EVEN) of the Company will be displayed. Those Members, who will be present in the EGM through VCOAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.  
 In case of any query, you may contact Ms. Pallavi Mhale, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400033, at the designated email id - [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavi@nsdl.co.in](mailto:pallavi@nsdl.co.in) or [soni@nsdl.co.in](mailto:soni@nsdl.co.in) or call at toll free no.: 1800-222-999 or at telephone nos. - +91 22 44994545, +91 22 24994559 and to the Company's id [investor.relations@servotechindia.com](mailto:investor.relations@servotechindia.com), who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For Servotech Power Systems Limited  
 Sd/-  
**Priya Pandey**  
**Company Secretary**

Date: 8<sup>th</sup> February, 2022  
 Place: New Delhi

**IDBI BANK IDBI BANK LTD**

**NOTICE UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (The SARFAESI Act)**

**Shri. Akash Poswal (Borrower)** S/o. Prem Poswal H.No. 677, Phulwari Palwal, Haryana, 121105  
**Mrs. Indresh (Co-Borrower)** W/o. Prem Poswal H.No.677, Phulwari Palwal, Haryana, 121105

**Shri. Prem Chand (Co-Borrower)** S/o. Phop Singh Phulwari Asoata, Palwal, Haryana, 121102  
**Shri. Akash Poswal (Borrower)** House No.11, Mauja Palwal Ram Nagar, Under Hadh Nagar, Parishad, Tehsil and district Palwal

**Mrs. Indresh (Co-Borrower)** House No.11, Mauja Palwal Ram Nagar, Under Hadh Nagar, Parishad, Tehsil and district Palwal  
**Shri. Prem Chand (Co-Borrower)** House No.11, Mauja Palwal Ram Nagar, Under Hadh Nagar, Parishad, Tehsil and district Palwal

Notice is hereby given to the aforesaid Borrower and Co-borrower that the aforesaid Borrower was sanctioned financial assistance of Rs. 20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs Only) by IDBI Bank Ltd. (IDBI Bank), by way of Education Loan. Pursuant to the sanction of the said financial assistance, necessary loan and security documents were executed by **Shri. Akash Poswal, Mrs. Indresh and Shri. Prem Chand**. The said financial assistance has been secured, inter alia, by mortgage by deposit of title deeds of the properties mentioned below. As the aforesaid Borrower has defaulted in repayment of the said financial assistance in terms of the Loan Agreement dated 11.01.2019, the account of the Borrower has been classified as non-performing assets (NPA) in the books of IDBI Bank in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. In view of the defaults committed by the aforesaid Borrower, IDBI Bank, vide its letter bearing Ref. No. IDBI Bank/KR/Delhi-NCR dated 02.11.2021, has declared the financial assistance together with interest and other moneys aggregating Rs. 21,83,064/- (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Three Thousand and Sixty Four Only) as on 05.03.2021 (including interest as on 04.03.2021), to have become immediately due and payable by the Borrower and called upon the Borrower to pay to IDBI Bank the said sums together with further interest thereon with effect from 05.03.2021 till payment or realization, at the contractual rate as stated in the said letter. As on 05.03.2021 an amount of Rs. 21,83,064/- (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Three Thousand and Sixty Four Only) is due and payable by **Shri. Akash Poswal, Mrs. Indresh and Shri. Prem Chand** to IDBI Bank, along with further interest thereon at the contractual rate till payment/realization.

Necessary notice was issued/served by IDBI Bank, under section 13(2) of the SARFAESI Act at the respective addresses of the Borrower and Co-Borrower by "Registered post with Acknowledgement Due" which was returned un-served with postal remark "Unsuccessful Address". In view of the aforesaid, this public notice is issued in compliance with Proviso to Rule 3 (1) of the SARFAESI Rules.

Please note that you shall not transfer or otherwise (other than in the ordinary course of your business) any of the Secured Assets, without prior written consent of IDBI Bank, failing which you shall be liable for an offence punishable under section 29 of the SARFAESI Act.

We invite your attention to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. In the circumstances, Borrower (s) /Mortgagor (s) is, once again, requested to pay the aforesaid amount within sixty days from the date hereof failing which IDBI Bank, as a secured creditor shall be entitled to enforce its security interest, under the provisions of the SARFAESI Act as also under any other law as available to IDBI Bank for realising its dues.

**Details of the property-** House No.11, Measuring 5 marla i.e 150 Sq yards, comprising out of Khewat/Khata No.4049/4647, Rect No.281, Kila No.3(3-14), 4(3-6), 7(5-0), 8(6-2), 12/2(3-0), 13(6-0), 14(6-1), 15(1(2-3)), 16(5-0), 17(8-0), 18(8-0), 19/1(3-0), 24/1(6-3), 22/2(2-6), 23/1(6-3), 25/1(5-18), 33(1-1), Situated at Mauja Palwal Ram Nagar, Under Hadh Nagar, Parishad, Tehsil and district Palwal

Authorised Officer  
 & Deputy General Manager  
**IDBI Bank Ltd.**

Date: 08-02-2022  
 Place: Sahibabad

**Orix Leasing & Financial Services India Limited**  
 Plot No. 94, Marol Co-operative Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400059  
**POSSESSION NOTICE**  
**(FOR IMMOVABLE PROPERTY) RULE 8(1)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under section 13(12) read with rule 3 of security interest (Enforcement) rules, 2002 a demand notice was issued by the authorized Officer of the company to the Borrower/ co-borrowers mentioned herein of the said notice. The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public, in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8 of the said rules. The borrower, in particular, and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be the subject to the charge of the ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD., for an amount referred to the below along with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, if the borrower clear the due of the ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD. together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD and no further step shall be taken by ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES INDIA LTD for transfer or sale of the secured assets.

| Name of Obligor(s)/ Legal Representative(s)                       | Date of Demand Notice | Total Outstanding Dues (Rs.) | Date of Physical Possession | Described of Secured Assets/ Immovable Properties                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. LN00000000001110 Pasha Consultants Arvejan Pasha Parveen Pasha | 18-Apr-2021           | Rs. 17562657.14/-            | 04-Feb-22                   | Property No-16, Second Floor Eastern Portion Without Roof Right, North West Avenue Punjabi Bagh Extn, Area of Village Madipur, New Delhi- 110026. |

For Further details contact Mr. Sukhwant Bhamrah @ 9810389922, Email: [sukhwant.bhamrah@orixindia.com](mailto:sukhwant.bhamrah@orixindia.com), Corporate office at : 71/2D, Najafgarh Road Industrial Area, Rama Road, New Delhi - 110015  
 Date: 09-Feb-2022  
 Place: Delhi NCR  
 Sd/- Authorized Officer  
**Orix Leasing & Financial Services India Ltd**

**LYKIS LIMITED**  
 CIN: L74999WB1984PLC038064  
 Registered Office: 57B, C.R. Avenue, 1st Floor, Kolkata 700 012  
 Tel: +91 22 4069 4069 Fax: +91 22 3009 8128 E-mail: [cs@lykis.in](mailto:cs@lykis.in) Website: [www.lykis.in](http://www.lykis.in)

**EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2021.** (₹ in Lakhs)

| Sl. No. | Particulars                                                 | Standalone                    |                               |                               | Consolidated                  |                               |                               |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                             | Quarter ended                 | Nine Month ended              | Quarter ended                 | Quarter ended                 | Nine Month ended              | Quarter ended                 |
|         |                                                             | December 31, 2021 (Unaudited) | December 30, 2021 (Unaudited) | December 31, 2020 (Unaudited) | December 31, 2021 (Unaudited) | December 30, 2021 (Unaudited) | December 31, 2020 (Unaudited) |
| 1.      | Total Income from Operations                                | 7,479.03                      | 23,043.11                     | 970.83                        | 8,070.08                      | 24,062.04                     | 970.89                        |
| 2.      | Net Profit / (Loss) before Tax from Continuing operations   | (487.11)                      | (113.23)                      | (205.03)                      | (299.77)                      | 116.06                        | (205.02)                      |
| 3.      | Net Profit / (Loss) after Tax from Continuing operations    | (508.11)                      | (134.23)                      | (205.03)                      | (320.77)                      | 95.06                         | (205.02)                      |
| 4.      | Net Profit / (Loss) before tax from Discontinued Operations | -                             | -                             | (7.33)                        | -                             | -                             | (7.33)                        |
| 5.      | Net Profit / (Loss) after tax from Discontinued Operations  | -                             | -                             | (7.33)                        | -                             | -                             | (7.33)                        |
| 6.      | Profit/(Loss) for the year                                  | (508.11)                      | (134.23)                      | (212.36)                      | (320.88)                      |                               |                               |



